



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

4 ज्येष्ठ 1940 (श10)  
(सं0 पटना 465) पटना, शुक्रवार, 25 मई 2018

---

सं० अ०स०क० 04-03-H-02 / 2018-49  
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

संकल्प  
18 मई 2018

विषय:- अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में अध्ययनरत/ आवासित छात्र/छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करने एवं उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रतिमाह 1,000/- (एक हजार) रुपये अनुदान प्रदान करने संबंधी “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना” की स्वीकृति ।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा छात्रावासों में आवासित होकर अध्ययनरत अल्पसंख्यक छात्र/ छात्राओं को बेड, आलमीरा, पठन-पाठन हेतु टेबुल, कुर्सी, पुस्तकालय के लिए मुख्य पुस्तकें, खाना बनाने हेतु बर्तन आदि की सुविधा प्रदान की जा रही है ।

2. राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/ छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करने एवं उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक छात्रावासों में अध्ययनरत/ आवासित छात्र/छात्राओं को छात्रावास अनुदान दिया जाना समीचीन है ।

3. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना” के अन्तर्गत अल्पसंख्यक छात्रावासों में अध्ययनरत/ आवासित छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा 1000/- (एक हजार) रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान की स्वीकृति दी जाती है ।

4. राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष -04- अल्पसंख्यकों का कल्याण, लघु शीर्ष -277- शिक्षा उपशीर्ष- 0105 अल्पसंख्यक कल्याण अंतरपूर्ति योजना विपत्र कोड- 30-2225042770105-21 सामग्री और आपूर्ति से विकलनीय होगा ।

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और उसकी प्रति संबंधित विभाग, पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
मो० एस० आई० फैसल,  
विशेष सचिव—सह—निदेशक ।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 465-571+1500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>